



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

9 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 83 राँची, मंगलवार, 29 जनवरी, 2019 (ई०)

---

#### नगर विकास एवं आवास विभाग

-----  
अधिसूचना

5 अक्टूबर, 2018

**संख्या:-8/गठन/147/2017/ न०वि०आ०-4922--** झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम 7, 2012) (यथा संशोधित) की धारा 3 की उपधारा (2)(ब), धारा-4, 5, 6 एवं 8 की उपधारा (2)(ii) में किये गये प्रावधान के आलोक में बोकारो जिलान्तर्गत गोमिया प्रखण्ड के 08 राजस्व ग्राम यथा-गोमिया, पलिहारी गुरुडीह, ससबेड़ा, खम्हरा, स्वांग, पीपराडीह, हजारी एवं खुदगड़ा को मिलाकर विभागीय अधिसूचना संख्या-4561, दिनांक 07 सितम्बर, 2018 (गजट अधिसूचना संख्या-877 दिनांक-11.09.2018) के द्वारा गोमिया नगर परिषद् वर्ग 'ख' का गठन किया गया है।

2. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम 07, 2012) (यथा संशोधित) की धारा 15 की उपधारा (2)(क) के परन्तुक में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा पार्षदों की संख्या का निर्धारण, अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना, जिसके सुसंगत आँकड़े प्रकाशित हो चुके हों, के आधार पर अवधारित करेगी।

3. "झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012" (यथा संशोधित) के नियम 3 के उपनियम (1)(ग)(ii) क्रमांक 1 में नगर परिषदों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) के गठन का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के आलोक में प्रथम 40,000 की जनसंख्या पर वार्डों की न्यूनतम

संख्या 20 (बीस) होगी। इसके पश्चात् प्रत्येक 6,000 की जनसंख्या पर 1(एक) अतिरिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) के गठन का प्रावधान है।

4. उपर्युक्त कंडिका से स्वतः स्पष्ट है कि पार्षदों की संख्या का अवधारण एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की संख्या का विनिश्चय स्वाभाविक रूप से एक-दूसरे के पूरक हैं।

उक्त प्रावधान के आलोक में गोमिया नगर परिषद् वर्ग 'ख' क्षेत्रान्तर्गत पार्षदों की संख्या/ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की संख्या का अवधारण निम्न रूपेण किया जाता है :-

जिला	नगरपालिका क्षेत्र का नाम	जनगणना 2011 के आधार पर कुल जनसंख्या	मानक जनसंख्या के आधार पर वार्डों की न्यूनतम संख्या		अवशेष जनसंख्या के आधार पर अनुमान्य वार्डों की संख्या				कुल वार्डों की संख्या
			मानक जनसंख्या	वार्डों की संख्या	जनसंख्या	अतिरिक्त प्रत्येक वार्ड के गठन हेतु विनिर्धारित जनसंख्या	अनुपात	वार्डों की संख्या	
बोकारो	गोमिया नगर परिषद् वर्ग 'ख'	48,141	40,000	20	8,141	6,000	1.35	01	21

5. उपर्युक्त अवधारण के आलोक में 'झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012' के अध्याय 2, नियम 3 के तहत वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों के आधार पर गोमिया नगर परिषद् वर्ग 'ख' में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की संख्या 21 एवं पार्षदों की संख्या भी 21 निर्धारित की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,  
सरकार के सचिव।

-----